



KL/SEC/2023-24/25
Date: 30th May, 2023

To,
The Manager- Listing
National Stock Exchange of India Limited,
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai-400 051

NSE Symbol: KAMDHENU

To,
The Manager- Listing
BSE Limited,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai- 400 001
BSE Scrip Code: 532741

Sub: Submission of Newspaper Publication(s).

Ref: Regulation 30 and Regulation 47 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 30 and Regulation 47 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing herewith, copies of extracts of Newspaper advertisements published in all editions of Financial Express (English Edition), and Delhi NCR edition of Jansatta (Hindi Edition) on Tuesday, 30th May, 2023, regarding dispatch of Notice of the Postal Ballot along with the Explanatory Statement and e-voting instructions.

We request you to kindly take the same on record.

Thanking you,

Yours faithfully,
For Kamdhenu Limited




Khem Chand,
Company Secretary & Compliance Officer

Encl.: as above.

Urban unemployment hits new low of 6.8% in Jan-Mar

Lowest level since the launch of the PLFS survey

SURABHI
New Delhi, May 29

THE URBAN UNEMPLOYMENT rate dipped further in the January to March 2023 quarter, according to the periodic labour force survey and declined for the seventh straight quarter, indicating that the urban labour market is on the path to recovery after the pandemic.

The unemployment rate in current weekly status (CWS) for persons of age 15 years and above in urban areas declined to 6.8% in the January to March 2023 quarter, belying concerns about a slowdown in economic activities.

This was the lowest quarterly unemployment rate since the inception of the survey.

GDP data for the fourth quarter, which will be released on May 31, will provide key indicators on how the economy performed.

Job creation is expected to be a key issue in the spate of state elections coming up.

The unemployment rate was at 7.2% in the two preceding quarters and at 8.2% in the January-March 2022 quarter.

It has been on a declining trajectory since April to June 2021 when it touched 12.6%.

It had hit a record high of 20.8% in the April to June 2020 quarter due to the national lockdown during the

UNEMPLOYMENT RATE

UR (%) in CWS in urban areas for persons of age 15 years and above



Source: MoSPI



Covid-19 pandemic.

The unemployment rate is defined as the percentage of persons unemployed among the persons in the labour force.

The activity status determined on the basis of reference period of last seven days preceding the date of survey is known as the CWS of the person.

According to the PLFS data released by the ministry of statistics and programme implementation on Monday, the difference in employment trends for men and women continued.

The unemployment rate amongst men above 15 years of age in urban areas was even lower at 6% in the January to March 2023 quarter as against 6.5% in the October to December 2022 quarter.

For women, it was much higher at 9.2%, marginally lower than 9.6% in the previous quarter.

The urban labour force participation rate (LFPR) for all ages, however, inched up to a high of 38.1% in the fourth quarter of last fiscal from 37.9% in the October to December 2022 period.

The urban LFPR for persons above 15 years of age was even higher at 48.5% in the fourth quarter of FY23.

LFPR is defined as the percentage of persons in labour force (that is working or seeking or available for work) in the population.

The LFPR for males above the age of 15 years in urban areas was significantly high at 73.5% while for women it

was at 22.7%. It was almost at the same level at 73.3% for men and 22.3% for women in the previous quarter.

The share of helpers in household enterprises, which translates to unpaid family labour, rose to 6.1% in the January to March 2023 quarter from 5.9% in the previous quarter, indicating continued pain in the labour markets. About 48.9% of the persons above 15 years of age in urban areas were in regular or wage salaried jobs while 11.7% were casual labour in the quarter ended March 31, 2023. About 39.5% of the persons were self-employed while 32.7% persons were own account workers.

The PLFS is conducted by the National Sample Survey

Term premium by some insurers likely to see further hike this year

SURABHI
New Delhi, May 29

TERM INSURANCE PREMIUM could see another hike this year with at least a few insurers mulling an increase in rates. However, in some relief to customers, the quantum of increase may not be as high as in the past few years. The increase is likely to be in the 5-8% range this time.

According to industry sources, a number of insurers are mulling an increase in the premium rates this year with the expected normalisation of the industry after two years of high claims from the Covid-19 pandemic.

"The past two years have seen high claims for the life insurance industry due to the pandemic. While reinsurers had increased rates, some insurers chose not to absorb it



at that time and not burden the customer," said an insurer, adding that some of these firms are now planning to hike rates in the next few months.

According to industry estimates, term insurance premium has risen by about 45% over the last two to two-and-a-half years as reinsurers had increased their rates and

tightened underwriting due to the high mortality and unprecedented claims during the pandemic.

Another insurer said that a few firms are looking at a hike in the premium rate for term insurance in the near future. "However, unlike in previous years, this time, the increase would be in single digits," he said, adding that the increase in term cover premiums is due to the increase in reinsurance rates in the last few years during the pandemic, which some insurers did not pass on at the time.

"Moving ahead, the prices would also depend on external factors which may impact life expectancy. Recent reports from World Health Organization on an emerging pathogen with even deadlier potential, and with China bracing for a new Covid wave,

may have an impact on the term insurance prices too," the insurer pointed out.

Industry experts however, point out that the premium for term insurance remains much lower in India compared to other countries.

For a ₹1 crore term insurance, the monthly premium can be ₹1,000 or even less for a 30-year-old individual.

"For less stringent underwriting norms, that would help increase penetration of life insurance policies, there is still some scope for higher premium," said an expert.

Term insurance is a pure life insurance policy that provides financial protection that provides a guaranteed sum to the nominee in case of death of the policyholder. The product saw a sharp increase in customer interest and demand during the pandemic.

G20 members working to define startups

FE BUREAU
New Delhi, May 29

THE STARTUP20, THE startup engagement group of G-20, will meet in Goa this weekend to arrive at a definition framework for a startup across the member countries. This would help open up market access and avenues of finance for new companies in the group, a senior official said on Monday.

"It may not be feasible to have a common definition (of startup). The meeting in Goa on June 3-4 will try to come up with a definition framework that is applicable across the



countries of G-20," Startup20 India chair and mission director Atal Innovation Mission, Niti Aayog, Chintan Vaishnav told mediapersons.

The focal point of the meeting will be to build consensus on the Draft Policy Communique, which the Startup20 recently published, asking the public for feedback.

After the Goa meeting, the group will finalise the communique and take it to the G20 summit on July 3-4.

Once the definition framework of a startup is laid down, the engagement group has drawn up a list of support measures that should be extended to the sector based on the reports of its five task forces on Foundation, Alliances, Finance, Inclusion and Sustainability.

These measures have been included in the Draft Policy Communique.

The Alliances taskforce recommendations that form part of the draft communique for

Goa include adopting key startup-specific policies, local regulations, and best practices that enable startups to smoothly access markets across G20 nations and even give them access to government contracts.

For hand holding startups in accessing markets across G-20, the draft communique also talks of designated government or private agencies.

"Under alliances, the countries are trying to ensure that there is some form of platform to promote cooperation between key stakeholders of the startup ecosystem such as incubators and regulators," Vaishnav said.

Startup investment culture in Guj needs to improve: Experts

ABHINAV KUMAR
Ahmedabad, May 29

GUJARAT IS AMONG the best performers for providing a supportive environment for startups to grow, however, experts believe that the investment culture in the state's startup ecosystem needs to improve.

"How a nation or state performs in any sector depends on the culture in the industry. Startup culture is not about money only, along with funds, it also includes networking, market reach, mentorship and hand-holding of the idea," said Jatin Trivedi, president, The Indus Entrepreneurs (TiE) Ahmedabad, a global non-profit venture devoted to entrepreneurs in all industries.

According to the states' startups ranking report, 2021 published by the Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT), ministry of commerce and industry, Gujarat is the best performing state among the category A or big states. The report said that the state scored 100 percentile in capacity building and access to market but the score for mentorship support is zero percentile.

Trivedi said the startup ecosystem in the state is good and currently stable but it needs to be improved so the industry can be stable and in good health. "Because the traditional investment opportunities like real-estate and stock market are prevalent among investors, the tendency of treating startups as investment opportunities only exists in the state. But it is witnessing a shift. Investors should hand-hold and guide the startup idea using his own expertise".

...the name you can BANK upon !

POSSESSION NOTICE For Movable/Immovable Properties
(Under Rule 8(1) Security Interest (Enforcement) Rule 2002)

The Authorized Officer of Punjab National Bank under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule - 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued demand notice on the date mentioned against account and stated here under calling upon the borrower/guarantor/mortgagor/Legal heir to repay the amount mentioned in the notice being together with further interest at contractual rate on the aforesaid amount and incidental expenses, costs, charges etc. within (60) sixty days from the date of receipt of said notice. The borrower/guarantor/mortgagor having failed to repay the amount notice is hereby given to the borrower/guarantor/mortgagor/Legal and the public in general that the undersigned has taken the **Symbolic possession** of the properties described herein below in exercise to powers conferred on him / her under section 13 (4) of the said act read with the Rule 8 of the said Rules on the date mentioned hereunder. **The borrower/guarantor/mortgagor/Legal attention is invited to the provision of Sub-Section (8) of section-13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.** The borrower/guarantor/mortgagor/Legal heir in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property. Any dealing with the property will be subject to the charge of Punjab National Bank for the amount and interest thereon. Details of the mortgaged Properties of which the possession had been taken is as follows.

Name of the Borrower/Guarantor/ Mortgagor & Branch	Amount	Date of Possession	Amt. Due as per Demand Notice	Details of the Mortgaged Property on which possession taken
Borrowers/Mortgagors/Partners/Guarantors M/s Shri Ram Ice and Cold Storage, through its Partners Namely, 1. Mr. Satendra Gautam S/o Shri Mitthan Lal Gautam, 2. Mrs. Suneeta Devi W/o Shri Satendra Kumar Gautam, 3. Mr. Aryan Gautam S/o Shri Satendra Kumar Gautam Branch Office- IBB, Agra	Rs. 1,16,11,364.76 (Rupees One Crore Sixteen Lac Eleven Thousand Three Hundred Sixty Four and Paise Seventy Six Only)+ Interest w.e.f. 01.01.2023	07.01.2023	25.05.2023	1. 1st Charge on entire block assets of the firm by way of EM of Factory Lease Land & Building, Hypothecation of Plant and machinery, Fixture & Furniture and other block assets of the firm purchased/ to be purchased out of Term Loan and Party's Contribution (Physical Possession will be Taken in due Course). 2. Plant and Machinery and EM on All that is part and parcel of Industrial Land & Building situated at part of khasra no. 34 kh. & 35 kh. Mauja Nagla Saleem Jalesar Road, Manikpur, khand Sahpau, Sadabad, District Hathras U.P. having an area of 4860.00 SQ.M. (810+4050 SQ.M.) belonging to M/S Shri Ram Ice and Cold Storage, having its Registered office situated at Khasra No. 34 Kh & 35 Kh, Mauza Nagla Saleem, Post Jalesar Road, Manikpur Sadabad, District Hathras, PIN-281306. Boundaries:- East-Land
Smt. Premwati, West-Land Sh. Chandra Babu, North-Land Sh. Chandra Babu South-30' Rasta.				3. All that is part and parcel of Residential Land & Building situated at Vinova Nagar, Mauza Sherpur, Near Veterinary Hospital, Sadabad, District Hathras having an area of 188 SQ.M. belonging to Smt. Sunita Gautam W/O Sh. Satyendra Kumar Gautam Boundaries:- East-6'wide Road, West-House of Sh. Madan Lal, North-House of Sh. Banwari Lal, South-8'wide Road.
3. Mr. Aryan Gautam S/o Shri Satendra Kumar Gautam Branch Office- IBB, Agra				4. All that is part and parcel of Plot situated at Vinova Nagar, Nagla Madari, Mauza Sherpur, Near Veterinary Hospital, Sadabad, District Hathras having an area of 130.33 SQ.M. belonging to Smt. Sunita Gautam W/O Sh. Satyendra Kumar Gautam. Boundaries:- East-15'wide Road, West-Property Sh. Mool Chand, North-House of Sh. Gautam Ji, South-Plot of Sh. Vishnu Kumar.

Authorized Officer
Punjab National Bank
Place: Agra

KAMDHENU LIMITED
CIN:L27101HR1994PLC092205
Regd. Office: 2nd Floor, Tower A, Building No. 9, DLF Cyber City, Phase-III, Gurugram (Haryana)-122002
Ph.: 91-124-4604500 Email: cs @kamdhenulimited.com
Website: www.kamdhenulimited.com

NOTICE OF POSTAL BALLOT

NOTICE is hereby given pursuant to the provisions of Section 108, 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013, read with the Rule 20 and Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, read with MCA Circulars and applicable regulations of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and any other applicable laws, rules, regulations and circulars, the approval of the members of Kamdhenu Limited ("the Company") is sought for the Special Resolution as set out in the Notice of Postal Ballot dated 18.05.2023 to be passed through Postal Ballot by voting through electronic means only.

The electronic copies of the Postal Ballot Notice along with the Explanatory Statement has been dispatched on Monday, 29th May, 2023, only by e-mail to all those members whose e-mail addresses are registered with the Company/ Registrar & Share Transfer Agent/ Depositories as on the cut-off date i.e Thursday, 25th May, 2023.

The members who have not registered their e-mail are requested to update/verify their e-mail address in the manner as set out in the Notice of Postal Ballot.

In accordance with the MCA Circulars physical copies of Postal Ballot Notice and Postal Ballot forms will not be sent to the members and the Company has engaged the services of NSDL for providing e-voting facility to its members for this postal ballot. The voting rights of the members shall be in proportion to their holding of equity shares in the paid up share capital of the Company. Only those members whose names are recorded in the Register of Members of the Company or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date i.e Thursday, 25th May, 2023, shall only be entitled to cast their vote by e-voting for the Postal Ballot process.

The e-voting period shall commence at 09:00 A.M (IST) on Tuesday, 30th May, 2023 and shall end at 05:00 P.M (IST) on Wednesday, 28th June, 2023 and e-voting module will not be allowed beyond the said dates. The detailed procedure and instructions for e-voting are mentioned in the Notice of the Postal Ballot.

The Board of Directors has appointed Shri Shashikanti Tiwari, Partner or failing him Shri Rupesh Agarwal, Managing Partner of M/s. Chandrasekaran Associates, Practicing Company Secretaries, as the scrutinizer ("Scrutinizer") for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner.

The Notice of Postal Ballot is also available on the website of the Company www.kamdhenulimited.com and website of the stock exchanges at www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com. The results for the e-voting conducted through postal ballot along with Scrutinizer's Report will be announced on or before Friday, 30th June, 2023 on the said websites of Company, Stock Exchanges and NSDL.

In case of any queries, the members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com. For any grievances regarding e-voting or any queries related thereto, you may contact Mr. Amit Vishal, Asst. Vice President, NSDL, 4th Floor, 'A' Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai, 400 013, e-mail: evoting@nsdl.co.in or call on 022-4886 7000 and 022-2499 7000.

**For Kamdhenu Limited, Sd/-
Khem Chand
Company Secretary & Compliance Officer
Membership No.: FCS 10065**

Date: 29th May, 2023
Place : Gurugram

RattanIndia Enterprises Limited
Extract from the Audited Consolidated Financial Results for the Quarter and Year Ended March 31, 2023 (Rs. Million)

Sr. No	Particulars	Quarter ended			Year ended	
		31.03.2023 (Audited)	31.12.2022 (Unaudited)	31.03.2022 (Audited)	31.03.2023 (Audited)	31.03.2022 (Audited)
1	Total income from operations	11,057.65	11,528.00	117.90	41,237.90	139.93
2	Net (loss)/ profit for the period (before tax and exceptional items)	(1,366.13)	(276.69)	5,648.86	(2,733.45)	5,540.67
3	Net (loss)/ profit for the period before tax (after exceptional items)	(1,366.13)	(276.69)	5,648.86	(2,733.45)	5,540.67
4	Net (loss)/ profit for the period after tax (after exceptional items)	(1,380.35)	(345.99)	5,646.83	(2,861.00)	5,538.64
5	Total comprehensive (loss)/ income for the period [Comprising (loss)/ income for the period after tax and other comprehensive income (net of tax)]	(1,376.01)	(345.90)	5,646.64	(2,858.17)	5,537.18
6	Paid-up equity share capital (face value of Rs. 2 per equity share)	2,764.54	2,764.54	2,764.54	2,764.54	2,764.54
7	Other Equity as shown in the audited balance sheet	-	-	-	1,331.58	4,223.44
8	Earnings per share (EPS) (face value of Rs. 2 per equity share)	(1.02)*	(0.25)*	4.09*	(2.07)	4.01
	-Basic (Rs.)	(1.02)*	(0.25)*	4.09*	(2.07)	4.01
	-Diluted (Rs.)	(1.02)*	(0.25)*	4.09*	(2.07)	4.01

*EPS for the quarter ended are not annualised

Notes:
(a) Additional information on standalone financial results is as follows: (Rs. Million)

Sr. No	Particulars	Quarter ended			Year ended	
		31.03.2023 (Audited)	31.12.2022 (Unaudited)	31.03.2022 (Audited)	31.03.2023 (Audited)	31.03.2022 (Audited)
1	Total income from operations	8.86	10.81	6.00	40.42	26.00
2	Net (loss)/ profit for the period before tax	(1,132.31)	(493.10)	440.47	(2,800.31)	431.24
3	Net (loss)/ profit for the period after tax	(1,132.31)	(493.10)	438.44	(2,800.31)	429.21
4	Total comprehensive (loss)/ income for the period [Comprising (loss)/ income for the period after tax and other comprehensive income (net of tax)]	(1,132.55)	(493.10)	438.20	(2,800.50)	428.12

(b) The above is an extract of the detailed format of audited financial results for the quarter and year ended March 31, 2023 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the audited financial results are available on the company's website https://www.rattanindia.com and on the Stock Exchanges website at www.bseindia.com and www.nseindia.com.

Registered Office : 5th Floor, Tower-B, Worldmark 1, Aerocity - New Delhi- 110037
CIN: L74110DL2010PLC210263

On behalf of the Board of Directors
For RattanIndia Enterprises Limited

Rajesh Kumar
Whole-time director

Place: New Delhi
Date : May 29, 2023

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड
CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD.
(A Navratna Undertaking of Govt. of India)
NSIC New MOBP Building, 2nd Floor, Okhla Indl. Estate (Opp. NSIC Okhla Metro Station), New Delhi-110020

TENDER NOTICE (E-Tendering Mode Only)

CONCOR invites Online Open E-Tender cum Reverse Auction in two bid mode as per following detail:

Tender No. CON/Area-ITC/Survey/MB-IOC/L2023

Name of Work: Survey of Containers/Cargo at ICD/MB alongwith SEZ location (Moradabad), IOCCL siding, Panipat and Inventory Management at ICD/MB, U.P.

Estimated Cost: Rs.5,70,10,931/- (Including GST) for Five (5) years.

Period of Contract: Five (5) years | Earnest Money Deposit: Rs. 2,28,100/- through e-payment.

Cost of Document: Rs.1,000/- inclusive of all taxes and duties through e-payment.

Tender Processing Fee: Rs.4,720/- inclusive of all taxes and duties (Non-refundable).

Date of Sale (On Line): From 30.05.2023 at 15:00 hrs. to 12.06.2023 (upto 16:00 hrs.).

Pre-Bid Meeting: 06.06.2023 at 15:00 hrs.

Corrigendum, if any: On or before 09.06.2023 on www.tenderwizard.com/CCIL only.

Last Date & Time of submission of tender: On 13.06.2023 upto 15:00 hrs.

Date & Time of Opening of tender: On 14.06.2023 at 15:30 hrs.

*Through E-payment For eligibility criteria and other details please log on to www.concorindia.com or eprocure.gov.in or www.tenderwizard.com/CCIL. Bidders are requested to visit the websites regularly. Senior General Manager (C & O)/Area-I, North

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड
CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD.
(A Govt. of India Undertaking) (A Navratna Company)

NOTICE INVITING E-TENDER

CONCOR invites E-Tender in Single Packet System of tendering for the following work:-

Tender No. CON/IA-II/ADI Cluster/P.Way-AMC/2023-25

Name of Work: Repair & Maintenance of Railway tracks at ICD-Khodiyar (KHDB), DCT-Khodiyar (DCC), CCT-Ankleshwar (AKV), RCT-Vadodra (BRC), CCT-Gandhidham (GIMB), MMLP Varnama & MMLP Dahje of Ahmedabad-Cluster, Area-II for a period of 02 years (i.e. 24 months).

Estimated Cost: Rs. 259.02 Lakhs inclusive GST

Completion Period: 24 Months

Earnest Money Deposit: Rs. 2,79,510/- (through e-payment)

Cost of Tender Document: NIL

Tender Processing Fee (Non-refundable): Rs. 4,720/- plus GST as applicable (through e-payment)

Date of Sale of Tender (online): 29.05.2023 (11:00 hrs.) to 19.06.2023 (upto 17:00 hrs.)

Date & Time of submission of Tender: 20.06.2023 upto 17:00 hrs.

Date & Time of Opening of Tender: 21.06.2023 at 15:30 hrs.

For financial eligibility criteria, experience with respect to similar nature of work, etc. please refer to detailed tender notice available on website www.concorindia.com, but the complete tender document can be downloaded from website www.tenderwizard.com/CCIL only. Further, Corrigendum / Addendum to this tender, if any, will be published on website www.concorindia.com, www.tenderwizard.com/CCIL and Central Procurement Portal (CPP) only. Newspaper press advertisement shall not be issued for the same.

Executive Director/P&S/Area-II
Phone No.: 011-4222500

MCX METAL & ENERGY
Trade with Trust

Exchange Square, Chakala, Andheri (East), Mumbai - 400 093. www.mcxindia.com

MULTI COMMODITY EXCHANGE OF INDIA LTD
seeks to appoint a
CHIEF REGULATORY OFFICER (CRO)

Qualified CA/ICWA/CS/MBA, having 20+ years leadership experience in Regulatory Compliance in all areas of the Exchange, dealing with Regulators and Government Agencies, managing all activities related to Membership Compliance, Arbitration/Investors Grievances/ Members' Inspection, Market Surveillance & Investigation (Trade Compliance), Risk Management and Exchange Compliance/ implementation of circulars, directions, guidelines issued by Regulators, Compliances with SCRA/SECC regulation, PMLA and SEBI Act & redressal of grievances, currently preferably working with large Financial Services' firm (exchanges, capital markets, banking, etc.)

To know more about the role, please visit the Company Website Careers section @ https://www.mcxindia.com/careers/job-openings.

To apply, please email your latest resume with profile synopsis and current remuneration to: team@ghconsulting.in within 7 days.

Contact: Ms. Tulika Prasad.

MCX METAL & ENERGY
Trade with Trust

Exchange Square, Chakala, Andheri (East), Mumbai - 400 093. www.mcxindia.com

MULTI COMMODITY EXCHANGE OF INDIA LTD
seeks to appoint a
CHIEF TECHNOLOGY OFFICER (CTO)

Looking for a seasoned professional with strong business acumen to play an integral role in steering the company's technology strategy, development and future growth.

Qualified BE / MCA / M Tech / MSc having 20+ years' experience in technology space, of which at least 5 years should be in senior management position leading large projects (in Capital Markets, Financial Services and IT / IT enabled services' firms) and handling multiple stakeholders (internal - Board level committees, external - regulators, technology vendors and service partners).

To know more about the role, please visit the Company Website Careers section @ https://www.mcxindia.com/careers/job-openings

To apply, please email your latest resume with profile synopsis and current remuneration to: careers@mcxindia.com within 7 days.

